

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं.: ईसीआई/प्रे.नो./62/2015

दिनांक: 07 नवंबर, 2015

बिहार विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2015

दिनांक 08.11.2015 को बिहार के 243 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना हेतु व्यवस्था

भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार बिहार विधान सभा निर्वाचन - 2015 की मतगणना के निर्विघ्न आयोजन हेतु व्यापक व्यवस्था की गई है। व्यवस्थाओं के मुख्य बिंदु निम्नलिखित अनुसार हैं:

- मतगणना के रूझानों/परिणामों को नियमित आधार पर ईसीआई वेबसाइट तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग वेबसाइट के माध्यम से 08 नवंबर, 2015 को पूर्वाह्न 08:00 बजे से शुरू करके मतगणना के रूझानों और परिणामों को प्रदर्शित करेगा। वेबसाइट का यूआरएल है: **eciresults.nic.in** भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट **eci.nic.in** का संबंधित लिंक भी होगा।
- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित 39 मतगणना केंद्रों में 243 मतगणना हॉल होंगे। सभी मतगणना केंद्र जिला मुख्यालयों में हैं। सहरसा जिले में दो मतगणना केंद्र हैं जो कि सामूहिक मार्ग द्वारा पृथक किए गए हैं और शेष 37 जिलों में केवल एक ही मतगणना भवन है।
- मतगणना प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से 243 प्रेक्षकों की तैनाती की गई है।
- आंतरिक घेरे सहित सभी मतगणना केंद्रों में 24×7 तीन पंक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है जिसे सीएपीएफ द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
- सभी मतगणना केंद्रों में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं।

- मतगणना पर लगाए गए सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी जिला निर्वाचन अधिकारी-सह-जिला मजिस्ट्रेट, रिटर्निंग अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों, डीआईओ, आईटी प्रबंधकों तथा अन्य तकनीकी व्यक्तियों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- सभी मतगणना केंद्रों में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं यथा कंप्यूटर, कम से कम दो विभिन्न टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं का इंटरनेट (डाटा कार्ड) कनेक्शन, प्रिंटर, फोटोकॉपियर, अतिरिक्त जनरेटर, अग्निशामक इत्यादि की व्यवस्था की गई है ।
- संचार व्यवस्था हेतु आवश्यक सुविधाओं सहित सभी मतगणना केंद्रों में मीडिया केंद्र स्थापित किए गए हैं ।
- मतगणना ड्यूटी के लिए अधिकारियों का यादृच्छिकरण ईसीआई के निदेशानुसार ईसीआई प्रेक्षकों के अधीक्षण में किया जाएगा ।
- एनआईसीके ई-काउंटिंग सॉफ्टवेयर और जेनेसिस पर डाटा को अपलोड करने के लिए सभी संबंधित व्यक्तियों को प्रशिक्षण दे दिया गया है और आवश्यक व्यवस्था कर दी गई है।

(धीरेन्द्र ओझा)
निदेशक